

लोहमार्ग जागरूक पोलीस

# कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाएं ये सरल उपाय अपनाएं



खाँसने या छीकने के बाद

1

हाथों को  
धोना  
रखें याद



शौचालय के इस्तोमाल के बाद

4



बीमार व्यक्ति की देख-रेख  
साफ हाथों से करें

2



खाना बनाने से पहले, खाना बनाने  
के बाद और खाना खाने से पहले

3



अगर खाँसी, बुखार या सॉसा  
लेने में परेशानी हो तो लुटंत  
डॉक्टर से संपर्क करें

सुरक्षित  
रहें!

कोरोना वायरस  
से बचे रहें!

यदि आप पिछले 15 दिनवरी  
के बाद बुहान-चीन से लौटे हैं,  
तो अपने आप को 2019-nCoV  
के लिए टेस्ट जरूर करवाएं।  
टेस्ट करवाने के रथान की  
जानकारी के लिए रवारश्य एवं  
परिवार कल्याण मंत्रालय  
भारत सरकार के हेल्प लाइन  
पर काल करें :

यदि आप पिछले 15 दिनों में  
चीन से लौटे हैं, या कोरोना  
वायरस से संक्रमित किसी  
व्यक्ति के संपर्क में आए हैं,  
तो अगले 14 दिनों के लिए राज  
के साथ संपर्क सीमित करें  
और अलग करवे में रहों।

चीन से लौटने के बाद 28 दिन  
के भीतर, अगर आपको  
बुखार, खाँसी या सॉसा लेने में  
तकलीफ जीरी कोई भी  
समस्या हो, तो तुरंत रवारश्य  
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
भारत सरकार के हेल्पलाइन  
नंबर पर काल करें :